

Dr. Virendra Swarup Education Centre (Sr. Wing), Shyam Nagar, Kanpur
Holiday Homework [2023-24]
Class – IV

English

Grammar Magic Book

Do Page Numbers 21-47, 53-62

New Tree Top

Read story No. 3 to 6 and do the comprehension exercises in the book only

Alice in Wonderland

Read Page Numbers 1 to 30

Mathematics

- Learn and Write the tables 2 – 20 in revision register.
- Precise Maths book- Do pages 22 to 31 in the book itself
- Solve practice sheet – 3 in your Maths revision register.

Science and Social Studies

- Write the name of any two food items eaten by people of any five states and mention the nutrients present in them
Identify the major nutrients and minor nutrients
- Write a paragraph on 'benefits of having a healthy and balanced diet' (Prepare in comment sheets).

हिंदी

- १-जुलाई परीक्षा में आने वाले साहित्य पाठों को अच्छी तरह पढ़ें और याद करें।
- २-हिंदी भाषा की उत्तर पुस्तिका में 'लालच का फल' शीर्षक पर एक कहानी लिखिए।
- ३-व्याकरण पुष्प पुस्तक भाग 4 के पीछे दिए गए कार्य प्रपत्र १,४,६ पूरा करें।

Dr. Virendra Swarup Education Centre (Sr. Wing), Shyam Nagar

Sub – Mathematics

Practice sheet-- 3

Class - IV

- 1) Estimate the sum of 54,871 and 32,594 by rounding off the number to nearest 100.
- 2) Estimate the difference of 14,523 and 32,572 by rounding off the numbers to nearest 1,000.
- 3) Put commas according to Indian number system in and also write in words
a) 652347 b) 213647 c) 846215 d) 312054
- 4) Find the difference when subtrahend = 21,364 and minuend = 65,542
- 5) Find the minuend when subtrahend 16,856 and difference = 24,526
- 6) Find the product of the place value and face value of 7 in 4,75,624.
- 7) Find the subtrahend when minuend = 32,542 and difference = 5,697.
- 8) Find the difference between the greatest and the smallest 6-digit numbers.
- 9) Define a) Ray b) line c) line segment
- 10) Write the successor and predecessor of and also find the sum:-
a) 2,56,899 b) 4,30,540 c) 6,56,666
- 11) Draw the line segment of the given measurement:-
a) 5.5cm b) 7cm c) 8.5cm d) 2.5cm
- 12) Simplify:-
a) $2,31,546 + 23,654 - 41,568$
b) $6,52,410 + 1,23,054 - 9,654$
c) $4,51,310 + 9,874 - 1,51,384$
- 13) Solve the following and answer in Roman numerals-
a) XLIV + XII b) XCIV - XLI
b) XXIX + XLI d) XXXVIII - XIX
e) Multiply LVI by VII f) Divide XLVIII by VI
- 14) Round off the following to nearest 100
a) 284 b) 9,567 c) 2,547 d) 8,473
- 15) Round off the following to nearest 1,000.
a) 45,621 b) 84,567 c) 31,812 d) 2,666
- 16) In the given figure, name:-
a) Any 2 lines
b) Any 2 line segments
c) Any 2 rays
d) Parallel lines

